

128  
प्रेषक,मनीषा पंवार,  
प्रमुख सचिव  
उत्तराखण्ड, शासन।

सेवा में,

आयुक्त,  
राज्य निर्वाचन आयोग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 11 जून 2016

विषय: उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग (मुख्यालय) सहायक समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली, 2016 का प्रख्यापन।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग (मुख्यालय) सहायक समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली, 2016 को प्रख्यापित करते हुए अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किए जाने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)  
प्रमुख सचिव।

संख्या 230 | (1)/XII(1)/2016-84(04)/2015 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड।
2. अपर सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को उनके अशासकीय पत्र संख्या-4/2/XV/XXI/2016-सी0एक्स0 दिनांक 27.06.2016 के क्रम में।
3. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लिथो प्रेस, रूड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि संलग्न नियमावली को असाधारण गजट में प्रकाशित कर इसकी 150 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल

संलग्नक: यथोपरि।

आज्ञा से,

(जे0एल0शर्मा)

उप सचिव।